

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 की धारा (4) के अधीन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
शाजापुर

लोक प्राधिकारियों का दायित्व
30/11/2010 की स्थिति में


सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर के लोक प्राधिकारियों का दायित्व

1. संगठनात्मक परिचय:-

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर के अन्तर्गत शाजापुर जिले के चार विकासखण्ड शाजापुर, मोहन बडोदिया, शुजालपुर, कालापीपल, कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अन्तर्गत पांच उपसंभाग तथा कार्यरत हैं। ये उपसंभाग शाजापुर, शुजालपुर, मक्सी, एवं काली सिंध परियोजना के सर्वेक्षण उप संभाग क्र.1 एवं 02 शाजापुर में स्थित हैं।

इस कार्यालय के कार्यालयीन संरचना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन कक्ष कार्यरत हैं। कार्य कक्ष के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की तकनीकी कार्य, लेखा कक्ष के अन्तर्गत योजनाओं के निविदा आमंत्रण, ठेकेदारों के भुगतान एवं बजट से संबंधित कार्य किया जाता है। इसी प्रकार स्थापना कक्ष के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण, सर्विस रिकार्ड, सामान्य प्रशासनिक कार्य इत्यादि संपादित किये जाते हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर



2.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय 2)

2.1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	शाजापुर जिले के चार विकासखण्ड शाजापुर, मोहन बडोदिया, शुजालपुर, कालापीपल,के सिंचाई योजनाओं का रखरखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण का दायत्व
2.2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा निर्मित योजनाओं से कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
2.3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग का कार्यालय, शाजापुर में दिनांक (1977 से प्रारंभ किया गया है।)
2.4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	कार्य क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण निर्माण एवं रखरखाव।
2.5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	
2.6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	
2.7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा	इसके अन्तर्गत पांच उपसंभाग तथा ये उपसंभाग शाजापुर, शुजालपुर ,एवं कार्ली सिंध सर्वेक्षण उप संभाग क.1 एवं 02 शाजापुर में स्थित है।
2.8	लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
2.9	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	
2.10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	
2.11	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर बेरछा रोड, शाजापुर 465001
2.12	कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय :	प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे

3.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर	
शक्तियां	प्रशासकीय वित्तीय अन्य	संभाग के अधीन समस्त अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण। क्षेत्र की सभी सिंचाई योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति (200 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली) रु. 50 हजार तक सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार से प्राप्त बजट आवंटन पर नियंत्रण एवं वितरण
कर्तव्य	योजनाओं का लक्ष्यानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण, सर्वेक्षण एवं रखरखाव आदि	

अधिनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य

क्रमांक	कक्ष	कर्तव्य एवं कार्य
1	स्थापना कक्ष	स्थापना के कार्य एवं संबंधितों का वेतन आदि के रिकार्ड का संधारण एवं सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्यों का संचालन
2	सामान्य कक्ष लेखा कक्ष	वित्तीय विषयों यथा बजट, आवंटन, व्यय, निविदाएँ आदि का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य
3	तकनीकी कक्ष	योजनाओं के तकनीकी विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण, निर्माण कार्यों का रूपांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी कार्यों का संधारण

4.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, शाजापुर
बेरछा रोड, शाजापुर 465001
दूरभाष : 07364-228733

फैक्स : 07364-

ई-मेल : — eewrdshajapur@yahoo.com.

अन्य : —

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :
(यदि कोई हो)

5.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

5.1 नीति निर्धारण हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भगीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	जल उपयोगिता समिति	हां	जिले से संलग्न कृषक एवं कलेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्य
2	जल उपभोक्ता संथायें कुल....15	हां	अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भगीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी	हां	सिंचाई प्रबंधन अधिनियम 1999 की व्यवस्था अनुसार

6.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

(अ) कार्य कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content)	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सिंचाई कार्यों के लिये तकनीकी परित्रों का संचालन	पुस्तक	तकनीकी परिपत्र एवं निर्देश	
2	म.प्र. कार्य/विभाग मुनुअल भाग-I,II,III	पुस्तक	विभाग में कार्य करने हेतु निर्देश एवं अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	
3	प्रशासकीय स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	
4	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
5	योजनावार सिंचाई का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाब से की गई सिंचाई का लेखा-जोखा	
6	योजनावार राजस्व वसूली का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाब से की गई राजस्व वसूली की जानकारी	
7	सर्वेक्षित योजना का विवरण	रजिस्टर	चिन्हित योजनायें	

(ब) स्थापना कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content)	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सेवा के मूलभूत नियम	पुस्तक	सेवा शर्तें एवं पेंशन, अवकाश, यात्रा भत्ते आदि संबंधित नियम	
2	सेवा आचरण नियम	पुस्तक	कर्मचारियों के आचरण संबंधित नियम एवं निर्देश	
3	सा.भविष्य निधि अग्रिम	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम का ब्यौरा	
4	अग्रिम रजिस्टर	रजिस्टर	त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण एवं विभिन्न अग्रिम का विवरण	
5	गोपनीय प्रतिवेदन	रजिस्टर	गोपनीय प्रतिवेदन का विवरण	
6	यात्रा भत्ता रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा देयकों का विवरण	
7	आकस्मिक अवकाश	रजिस्टर	आकस्मिक अवकाश का विवरण	
8	वेतन रजिस्टर	रजिस्टर	वेतन भत्तों की पृविष्टि	

9	सा. भविष्य निधि	रजिस्टर	मासिक कटौती का विवरण	
10	विभागीय भविष्य निधि	रजिस्टर	चतुर्थांश श्रेणी कर्मचारी के विभागीय भविष्य निधि कटौती का विवरण	
11	चिकित्सा रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी के चिकित्सा देयक का विवरण	
12	भाड़ा अभिलेख	रजिस्टर	शासकीय आवास किराये का विवरण	
13	पेंशन रजिस्टर	रजिस्टर	पेंशन प्रकरणों का विवरण	
14	इन्कम्बेंसी	रजिस्टर	अधिकारी/ कर्मचारी की इन्कम्बेंसी का विवरण	
15	आय-व्यय पत्रक	रजिस्टर	मासिक आय-व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि	
16	देयक	रजिस्टर	कोषालय को प्रस्तुत किये जाने वाले देयक की प्रविष्टि	

(स) लेखा कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content)	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	लोक निर्माण संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विवरण	
2	लोक निर्माण लेखा संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण लेखा संबंधि विवरण	
3	म.प्र. वित्त नियम	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य के वित्तीय अधिकार	
4	कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस. आर.)	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत दरें	
5	भंडार नियम	पुस्तक	लोक निर्माण भंडार के विस्तृत नियमावली	
6	भंडार क्रय नियम	पुस्तक	भंडार क्रय से संबंधित नियम	
7	फार्म 80 (Telly)	फार्म	लेखा तैयार किया जाता है समस्त उपखंड एवं संभाग का आय-व्यय	
8	फार्म 64	फार्म	संभाग के समस्त शिर्षों का मासिक खर्च	
9	निविदा पंजी	फार्म	संभाग से आमंत्रित सभी निविदाओं की जानकारी	
10	निविदा खोलने का रजिस्टर	फार्म	निविदा खोलने के पश्चात् प्राप्त निविदाओं की आयटम एवं दर सहित जानकारी	
11	अनुबंध पंजी	रजिस्टर	ठेकेदार से किये जाने वाले अनुबंध की माहिती	

12	मनीरसीद प्राप्ती	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त होने के पश्चात् प्रविष्टि	
13	चेक बुक प्राप्ती	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त करने के पश्चात् प्रविष्टि	
14	ठेकेदारों का खाता	रजिस्टर	ठेकेदारों के बिल भुगतान पश्चात् सभी की विस्तृत जानकारी	
15	ठेकेदारों के पंजीकरण	रजिस्टर	प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किये गये ठेकेदारों की जानकारी सभी श्रेणी के	
16	विविध अग्रिम पंजी	रजिस्टर	संभाग से दिये गये अग्रिम ठेकेदार/कर्मचारी/अन्य संभाग आदि की माहिती	
17	सिविल डिपॉजिट	रजिस्टर	ठेकेदारों के रनिंग बिलों से वसूली गई राशि	
18	विविध जमा	रजिस्टर	अन्य संभाग एवं ठेकेदारों के विरुद्ध विविध जमा	
19	केस (Cess) कर्मकार कल्याण उपकर	रजिस्टर	भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर लगाया गया 1: कर राशि	
20	फार्म-12 (भण्डार)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये भण्डार सामग्री की जानकारी	
21	फार्म-15 (टी.एण्ड पी.)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये टी.एण्ड पी. की जानकारी	
22	भण्डार के गोपनीय जांच	रजिस्टर	भण्डार सामग्री की गोपनीय जांच बाबत्	
23	कोर्ट प्रकरण	रजिस्टर	संभाग में चल रहे कोर्ट केस प्रकरणों की माहिती	
24	आय-व्यय प्रत्रक	रजिस्टर	संभाग में चल रहे निर्माण कार्य के मासिक आय एवं व्यय, कुल व्यय आदि की माहिती	
25	आयकर कटोत्रा	रजिस्टर	ठेकेदार के रनिंग बिलों से 2: आयकर वसूली	
26	वाणिज्य कर	रजिस्टर	ठेकेदार के बिलों से 2: वाणिज्य कर वसूली	
27	चेक कटोत्रा	रजिस्टर	संभाग एवं उपसंभाग में चेक काटने के पश्चात् शीर्ष सहित वसूली संबंधी	
28	चालान रजिस्टर	रजिस्टर	संभाग से प्राप्त चेक एवं नगद राशि कोषालय में जमा करने बाबत्	
29	रेमिटेन्स	रजिस्टर	चालान जमा करने के पश्चात् चालान नंबर वाईज जानकारी	

30	माप पुस्तिका	रजिस्टर	उपखंडों को छोटी एवं बड़ी माप पुस्तिकायें प्रदाय की जाती है।	
31	शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण	रजिस्टर	संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पंजी	
32	कार्यपालन यंत्री द्वारा माप चेक (मेजरमेंट चेक)	रजिस्टर	ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों की 10 जांच कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है।	
33	रिव्यू माप पुस्तिका	रजिस्टर	अंकेक्षणों द्वारा माप पुस्तिकाओं का रिव्यू किया जाता है।	
34	महालेखाकार निरीक्षण	रजिस्टर	निरीक्षण दल द्वारा राजस्व/सिविल कर कण्डीकाओं की जानकारी	
35	वर्क एबस्ट्रेक्ट	रजिस्टर	मरम्मत कार्य के व्यय की उपशीर्ष वार जानकारी	

7.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण— सूची संलग्न है

1	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

2	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

3	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

4	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

5	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य)	
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	
●	मुख्य अधिकारी का नाम	
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	
●	बैठक की आवृत्ति	
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	

8.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी. एल.मीणा	संभागीय लेखाधिकारी	07364	228733	—	—	eewrdshajapur@yahoo.com.	जी.1 सिंचाई कालोनी बेरछा रोड शाजापुर

लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. ओ.प्र. मिश्र	कार्यपालन यंत्री	07364	228733	229744	—	eewrdshajapur@yahoo.com.	एफ. 1, सिंचाई कालोनी बेरछा रोड शाजापुर

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एच. के. मारु साहेब	अधीक्षण यंत्री	0731	2491090	—	0731 — 2491090	sewrcircleindore@yahoo.com.	कार्या. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल इन्दौर

9.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैन्यूअल और बिजीनेस मैन्यूअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)	नियमानुसार
9.2	किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है?	नियमानुसार
9.3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है?	आवश्यकता अनुसार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है।
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?	कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिये अधिकारी नामांकित है।
9.5	अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी?	कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन यंत्री कार्यालय में निर्णय लेने की कार्य प्रणाली

क्रं.	कक्ष	प्रारंभिक कार्य करने वाला कर्मचारी अधिकारी	प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी/कर्मचारी	अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी
1	2	3	4	5
1	कार्य कक्ष	मानचित्रकार सहायक मानचित्रकार	संलग्न अधिकारी	कार्यपालन यंत्री
2	लेखा कक्ष	वरिष्ठ लेखा लिपिक अंकेक्षक	संभागीय लेखा अधिकारी	कार्यपालनयंत्री
3	स्थापना कक्ष	सहायक लिपिक ग्रेड-3	स्थापना लिपिक ग्रेड-2	कार्यपालन यंत्री
4	आबियाना कक्ष	राजस्व/सिंचाई लिपिक	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	निविदा स्वीकृति, पंजीयन
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	निविदा समिति द्वारा
निर्णय लेने की प्रक्रिया	बैठक आयोजित कर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के नाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यपालन यंत्री, 2. सहायक यंत्री (रूपांकन) 3. सहायक यंत्री (संबंधित) 4. संभागीय लेखापाल
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें।	निरंक

10.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री ओ.प्र. मिश्र	कार्यपालन यंत्री	07364	228733	229744			
2	श्री एच.बी. माथुर	सहायक यंत्री	—	—	—	—	—	
3	श्री सतीशचंद्र दामोदर प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	—	—	—	—	—	
4	श्री एस.एन. गुप्ता	संलग्न अधि.	—	—	—	—	—	
5	श्री नवीन कमठान	सहायक यंत्री	—	—	—	—	—	
6	श्री बी.एल. मीना श्री रामस्वरुप मीना	संभागीय लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	—	—	—	—	—	
7	श्री पी.के. चौबे श्री आर.एन चौबे	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
8	श्री एस. के. सक्सेना श्री कृष्णलाल सक्सेना	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
9	श्री आर.एस. परमार श्री बी. डी. परमार	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
10	श्री व्ही. के महाजन श्री छोटूलाल महाजन	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
11	श्री बालकृष्ण श्रीवास्तव श्री श्यामस्वरुप श्रीवास्तव	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
12	श्री अबरार अहमद श्री मोह. जमीर खा	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
13	श्री भागीरथ शिन्दे श्री नारायण शिन्दे	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
14	श्री एस. आर. बडोलिया श्री जी.आर. बडोलिया	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
15	श्री डी.एस.गोहिल	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
16	श्री आर.सी.गुर्जर श्री बी.डी. गुर्जर	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
17	श्री एन.के. दाधिच श्री एस. एस. दाधिच	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
18	श्री योगेश कुमार गुप्ता श्री राधेश्याम गुप्ता	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
19	श्री एन.एस. गोठी श्री ए.आर. गोठी	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
20	श्री पी.के. मुंशी श्री आर.सी. मुंशी	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
21	श्री ए.सी. सौलंकी श्री भेरुलाल सौलंकी	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
22	श्री एम.एस. व्यास श्री एम. एल. व्यास	उपयंत्री	—	—	—	—	—	

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	श्री एच.एन. बरगडिया श्री सूरजमल बरगडिया	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
24	श्री आर.सी. राठौर श्री धूरीलाल राठौर	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
25	श्री व्ही.के. रस्तोगी श्री वेदप्रकाश रस्तोगी	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
26	श्री इसरारउद्दीन शेख	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
27	श्री देवेन्द्र कुमार पंवार	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
28	श्री दिनेश कुमार भोजराज वर्मा	अनुरेखक	—	—	—	—	—	
29	श्री सुरेश कुमार प्रभुदयाल चौहान	अनुरेखक	—	—	—	—	—	
30	कु. रीता वर्मा पिता श्री एम. एस. वर्मा	अनुरेखक	—	—	—	—	—	
31	श्री पी.के. जवखेडकर	उपयंत्री	—	—	—	—	—	
32	श्री महेशप्रसाद मूलचंद सराठे	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
33	श्री रामसिंह शिवकरण पंवार	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
34	श्री नगजीराम उदाजी जुलवानिया	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
35	श्री भगवान सिंह रुपसिंह मौर्य	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
36	श्री गजेन्द्र कुमार गणपति दवे	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
37	श्री मो. रउफ खान मो. रमजान खान	सहायक वर्ग 2	—	—	—	—	—	
38	श्री शैलेश सत्यनारायण तिवारी	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
39	श्री विनोद कन्हयालाल नागर	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
40	श्री रवि कुमार मदन मोहन शर्मा	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
41	श्री रामचन्द्र गंगाराम माली (पुष्पद)	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
42	श्री सुरेश सिंह मथुरालाल राठौर	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
43	श्रीमति नीलम पति नरेन्द्र कुमार पालखे	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
44	श्री रज्जाक खां रमजान खां	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
45	श्री सूरजसिंह धन्नाजी	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
46	श्रीमति सुधा पति सुरेशचंद्र खडीकर	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
47	श्री सैयद मो. मुस्तुफिजूल . हसन	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	श्री विजयकुमार रामप्रसाद माथुर	सहायक वर्ग 3						
49	श्री दीलिप कुमार रतनलाल जोशी	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
50	श्री प्रभुलाल विष्णुप्रसाद नागर	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
51	श्री दिनेश कुमार कन्हैयालाल शर्मा	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
52	श्री लक्ष्मण गोपीलाल गवली	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
53	श्री नीता शाह पति चन्द्रेश शाह	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
54	श्री ओमप्रकाश अंबाराम शर्मा	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
55	श्री मुरलीधर गोवर्धन लाल शर्मा	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
56	श्री अंबाराम. कन्हैयालाल बामनिया	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
57	श्री अशोक कांतिचंद्र उपाध्याय	सहायक वर्ग 3	—	—	—	—	—	
58	श्री सतीश कुमार रामचरणलाल श्रीवास्तव	सहायक मानचित्रकार	—	—	—	—	—	
59	श्री गिरधारीलाल गौरीलाल भिलाला	सहायक मानचित्रकार	—	—	—	—	—	
60	श्री ज्योतिन्द्र कुमार कांतिलाल व्यास	प्रयोगशाला तकनीशियन	—	—	—	—	—	
61	श्री दिलिप बापूराव देशमुख	अमीन	—	—	—	—	—	
62	श्री बादाम सिंह देवगीर श्री रामदयाल जी	अमीन	—	—	—	—	—	
63	श्री गोपालकृष्ण रामेश्वर पांडे	अमीन	—	—	—	—	—	
64	श्री प्रेमचंद्र घनश्यामदास गुप्ता	अमीन	—	—	—	—	—	
65	श्री रविंद्र कुमार नंदकिशोर धनोपिया	अमीन	—	—	—	—	—	
66	श्री काशीराम बल्देव सिंह बामानिया	अमीन	—	—	—	—	—	
67	श्री नारायण सिंह कमलसिंह पंवार	अमीन	—	—	—	—	—	
68	श्री के.सी. पाटीदार श्री किशनलाल पाटीदार	अमीन	—	—	—	—	—	
69	कुमारी अनीता पाटीदार	अमीन	—	—	—	—	—	
70	श्री मोहनदास किशोर दास बेरागी	भृत्य	—	—	—	—	—	
71	श्रीमति भंवरी बाई पति नानूराम	भृत्य	—	—	—	—	—	

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	श्री बालचंद्र छोटेलाल किचोलिया	भृत्य	—	—	—	—	—	
74	श्री अमरसिंह शंकरलाल	भृत्य	—	—	—	—	—	
75	श्री सिद्धलाल बुलाजी	भृत्य	—	—	—	—	—	
76	श्री गोवर्धन सिंह कचरुलाल	भृत्य	—	—	—	—	—	
77	श्री कैलाश माखनसिंह	भृत्य	—	—	—	—	—	
78	श्री गोविंद रामसिंह भदोरिया	भृत्य	—	—	—	—	—	
79	श्री जयराम हरीनारायण मालवीय	भृत्य	—	—	—	—	—	
80	श्री हिम्मत सिंह गोकुल सिंह	भृत्य	—	—	—	—	—	
81	श्री शिवनारायण मांगीलाल	भृत्य	—	—	—	—	—	
82	श्री सुमन कुमार विक्रम सिंह मगरोलिया	भृत्य	—	—	—	—	—	
83	श्री कृष्णदास बैरागी	भृत्य	—	—	—	—	—	

11.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

सं.क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिकवेतन +महगाई वेतन डी.ए.+अंतरिम राहत	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	2	3	4	5	6
1	श्री ओ.प्र. मिश्र	कार्यपालन यंत्री	--		शासन द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते
2	श्री एच.बी. माथुर	सहायक यंत्री	28510+7600		
3	श्री सतीशचंद्र दामोदर प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	28510+7600		
4	श्री एस.एन. गुप्ता	संलग्न अधि.	28510+7600		
5	श्री नवीन कमठान	सहायक यंत्री	29190+7600		
6	श्री बी.एल. मीना श्री रामस्वरुप मीना	संभागीय लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	17610+4800		
7	श्री पी.के. चौबे श्री आर.एन चौबे	उपयंत्री	21700+5400		
8	श्री एस. के. सक्सेना श्री कृष्णलाल सक्सेना	उपयंत्री	23000+6600		
9	श्री आर.एस. परमार श्री बी. डी. परमार	उपयंत्री	23610+6600		
10	श्री व्ही. के महाजन श्री छोटूलाल महाजन	उपयंत्री	21760+6600		
11	श्री बालकृष्ण श्रीवास्तव श्री श्यामस्वरुप श्रीवास्तव	उपयंत्री	9300+3200		
12	श्री अबरार अहमद श्री मोह. जमीर खा	उपयंत्री	17850+5400		
13	श्री भागीरथ शिन्दे श्री नारायण शिन्दे	उपयंत्री	17850+5400		
14	श्री एस. आर. बडोलिया श्री जी.आर. बडोलिया	उपयंत्री	17850+5400		
15	श्री डी.एस.गोहिल	उपयंत्री	21160+6600		
16	श्री आर.सी.गुर्जर श्री बी.डी. गुर्जर	उपयंत्री	16010+4200		
17	श्री एन.के. दाधिच श्री एस. एस. दाधिच	उपयंत्री	20560+6600		
18	श्री योगेश कुमार गुप्ता श्री राधेश्याम गुप्ता	उपयंत्री	9680+3200		
19	श्री एन.एस. गोठी श्री ए. आर. गोठी	उपयंत्री	21800+6600		
20	श्री पी.के. मुंशी श्री आर.सी. मुंशी	उपयंत्री	21760+6600		

सं.क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिकवेतन +महगांई वेतन डी.ए.+अंतरिम राहत	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	2	3	4	5	6
21	श्री ए.सी. सौलंकी श्री भेरुलाल सौलंकी	उपयंत्री	19920+5400		
22	श्री एम.एस. व्यास श्री एम. एल. व्यास	उपयंत्री	22390+6600		
23	श्री एच.एन. बरगडिया श्री सूरजमल बरगडिया	उपयंत्री	21800+6600		
24	श्री आर.सी. राठौर श्री धूरीलाल राठौर	उपयंत्री	16870+4200		
25	श्री व्ही.के. रस्तोगी श्री वेदप्रकाश रस्तोगी	उपयंत्री	22390+6600		
26	श्री इसरारउद्दीन शेख	उपयंत्री	19920+5400		
27	श्री देवेन्द्र कुमार पंवार	उपयंत्री	15780+4200		
28	श्री पी.के. जवखेडकर	उपयंत्री	14710+4200		
29	श्री दिनेश कुमार भोजराज वर्मा	अनुरेखक	10240+1900		
30	श्री सुरेश कुमार प्रभुदयाल चौहान	अनुरेखक	10240+1900		
31	कु. रीता वर्मा पिता श्री एम.एस. वर्मा	अनुरेखक	10860+2400		
32	श्री महेशप्रसाद मूलचंद सराठे	सहायक वर्ग 2	12060+2800		
33	श्री रामसिंह शिवकरण . पंवार	सहायक वर्ग 2	12870+2800		
34	श्री नगजीराम उदाजी जुलवानिया	सहायक वर्ग 2	11530+2800		
35	श्री भगवान सिंह रुपसिंह मोर्य	सहायक वर्ग 2	12600+2800		
36	श्री गजेन्द्र कुमार गणपति दवे	सहायक वर्ग 2	13950+2800		
37	श्री मो. रउफ खान मो. रमजान खान	सहायक वर्ग 2	12700+2400		
38	श्री शैलेष सत्यनारायण तिवारी	सहायक वर्ग 3	10300+2400		
39	श्री विनोद कन्हयालाल नागर	सहायक वर्ग 3	10500+2400		
40	श्री रवि कुमार मदन मोहन शर्मा	सहायक वर्ग 3	10140+2400		
41	श्री रामचन्द्र गंगाराम माली (पुष्पद)	सहायक वर्ग 3	9940+2400		

सं.क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिकवेतन +महगाई वेतन डी.ए.+अंतरिम राहत	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	2	3	4	5	6
42	श्री सुरेश सिंह मथुरालाल राठौर	सहायक वर्ग 3	9940+2400		
43	श्रीमति नीलम पति नरेन्द्र कुमार पालखे	सहायक वर्ग 3	10140+2400		
44	श्री रज्जाक खां रमजान खां	सहायक वर्ग 3	9080+2400		
45	श्री सूरजसिंह धन्नाजी	सहायक वर्ग 3	8820+2400		
46	श्रीमति सुधा पति सुरेशचंद्र खडीकर	सहायक वर्ग 3	8500+2400		
47	श्री सैयद मो. मुस्तुफिजूल हसन	सहायक वर्ग 3	8680+2400		
48	श्री विजयकुमार रामप्रसाद माथुर	सहायक वर्ग 3	8500+2400		
49	श्री दीलिप कुमार रतनलाल जोशी	सहायक वर्ग 3	9240+2400		
50	श्री प्रभुलाल विष्णुप्रसाद नागर	सहायक वर्ग 3	8820+2400		
51	श्री दिनेश कुमार कन्हैयालाल शर्मा	सहायक वर्ग 3	8360+1900		
52	श्री लक्ष्मण गोपीलाल गवली	सहायक वर्ग 3	8850+1900		
53	श्री नीता शाह पति चन्द्रेश शाह	सहायक वर्ग 3	9780+2400		
54	श्री ओमप्रकाश अंबाराम शर्मा	सहायक वर्ग 3	9580+2400		
55	श्री मुरलीधर गोवर्धन लाल शर्मा	सहायक वर्ग 3	9580+2400		
56	श्री अंबाराम. कन्हैयालाल बामनिया	सहायक वर्ग 3	9080+2400		
57	श्री अशोक कांतिकंद्र उपाध्याय	सहायक वर्ग 3	10660+2400		
58	श्री सतीश कुमार रामचरणलाल श्रीवास्तव	सहायक मानचित्रकार	11630+2400		
59	श्री गिरधारीलाल गौरीलाल भिलाला	सहायक मानचित्रकार	11200+2400		
60	श्री ज्योतिन्द्र कुमार कांतिलाल व्यास	प्रयोगशाला तकनीशियन	11630+2400		
61	श्री दिलिप बापूराव देशमुख	अमीन	8050+2100		
62	श्री बादाम सिंह देवगीर	अमीन	10310+2400		

सं.क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिकवेतन +महगाई वेतन डी.ए.+अंतरिम राहत	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	2	3	4	5	6
	श्री रामदयाल जी				
63	श्री गोपालकृष्ण रामेश्वर पांडे	अमीन	8380+2100		
64	श्री प्रेमचंद्र घनश्यामदास गुप्ता	अमीन	9940+2400		
65	श्री रविंद्र कुमार नंदकिशोर धनोपिया	अमीन	8240+2100		
66	श्री काशीराम बल्देव सिंह बामानिया	अमीन	8050+2100		
67	श्री नारायण सिंह कमलसिंह पंवार	अमीन	8050+2100		
68	श्री के.सी. पाटीदार श्री किशनलाल पाटीदार	अमीन	8550+2100		
69	कुमारी अनीता पाटीदार	अमीन	5200+2100		
70	श्री मोहनदास किशोर दास बेरागी	भृत्य	8330+2100		
71	श्रीमति भंवरी बाई पति नानूराम	भृत्य	7450+1800		
72	श्री बालचंद्र छोटेलाल किचोलिया	भृत्य	7450+1800		
74	श्री अमरसिंह शंकरलाल	भृत्य	7450+1800		
75	श्री सिद्धलाल बुलाजी	भृत्य	7450+1800		
76	श्री गोवर्धन सिंह कचरुलाल	भृत्य	7300+1800		
77	श्री कैलाश माखनसिंह	भृत्य	7300+1800		
78	श्री गोविंद रामसिंह भदोरिया	भृत्य	7740+1800		
79	श्री जयराम हरीनारायण मालवीय	भृत्य	7450+1800		
80	श्री हिम्मत सिंह गोकुल सिंह	भृत्य	7450+1800		
81	श्री शिवनारायण मांगीलाल	भृत्य	7490+1800		
82	श्री सुमन कुमार विक्रम सिंह मगरोलिया	भृत्य	6610+1300		
83	श्री कृष्णदास बैरागी	भृत्य	4440+1300		

12.0 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (निर्माणाधीन)

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12-1

वर्ष 2010-11 :

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) लाख में आबंटन 2010-11	कुल व्यय (2010-11 में माह नवम्बर तक)	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बापचा वियर (अतिरिक्त कार्य)	लघु सिंचाई योजना	10/2009	पूर्ण	5.00	समस्त योजनाओं के लिये रु. 9 करोड 50 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।	47.59	29.59	कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी
2	रुलकी तालाब	—''—	02-02-07	पूर्ण	5.00		0.00	0.00	
3	हनोती ता.	—''—	08.02.08	06/2011	10.00		5.00	0.00	
4	लाहोरी तालाब	—''—	04-02-08	पूर्ण	5.00		0.00	0.00	
5	खेजडिया ता.	—''—	02.02.08	पूर्ण	5.00		81.96	81.96	
6	जेठडा ता.	—''—	08.02.08	06/2011	75.00		0.00	0.00	
7	बांकाखेडी डूंगलाय वियर	—''—	03.02.08	06/2010 में पूर्ण	100.00		88.91	88.91	
8	सिमरोल ता. क्र.2	—''—	05.04.08	06/2011	10.00		5.00	0.00	
9	हिमलेश्वर ता.	—''—	02.02.08	03/2011	50.00		26.90	2.59	
10	रघुनाथपुरा तालाब	—''—	01.02.09	31.03.11	75.00		94.04	64.18	
11	खजूरी मकोडी तालाब	—''—	01.02.09	31.12.10	124.00		20.00	0.00	
12	अवंतिपुर बडोदिया वियर	—''—	04.02.08	31.12.10	75.00		87.41	67.41	
13	कोठरी वियर	—''—	02.02.09	31.03.11	50.00		15.00	15.00	
14	पारदाखेडी वियर	—''—	02.02.09	31.03.11	50.00		9.00	3.04	
15	कश्मीरी बैराज	—''—	02.02.09	31.03.11	50.00		21.00	17.61	
16	तिलावद बैराज	—''—	02.02.09	31.03.11	25.00		5.00	0.00	
17	बंजारी वियर	—''—	02.02.09	31.03.11	50.00		32.00	23.12	

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) लाख में आबंटन 2010-11	कुल व्यय (2010-11 में माह नवम्बर तक)	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	सिलोदा ता. का जिर्णोद्धार	—''—	06.02.08	31.03.11	0.00		0.00	33.74	
19	रामडी तालाब	—''—	--	--	75.00		0.00	1.10	
20	खाम तालाब	—''—	15.04.10	31.10.12	75.00		55.00	25.00	
21	झुंडी वियर	—''—	05.03.08	पूर्ण	5.00		8.00	8.00	
22	कौसलाभाट खेडी वियर	—''—	--	--	75.00		0.00	10.00	
23	बिजाना तालाब	—''—	--	--	75.00		132.00	132.00	
24	रंथ भंवर तालाब	—''—	07.06.10	30.06.11	25.00		0.00	0.00	
25	खडी न्यू ता.	—''—	--	--	25.00		0.000	0.00	
26	तिलावद गोविंद तालाब	—''—	08.06.10	31.03.11	90.00		30.00	0.00	
27	मकोडी उमर सिंगी तालाब	—''—	17.06.10	30.06.11	130.00		40.00	0.00	

13.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

○ कार्यक्रम/योजना का नाम	निरंक
○ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	
○ कार्यक्रम का उद्देश्य	
○ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
○ लाभार्थी की पात्रता	
○ पूर्वापेक्षाएं	
○ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
○ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड	
○ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
○ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
○ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें।	
○ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
○ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
○ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
○ संलग्नकों की सूची	

○ संलग्नकों का प्रारूप	
○ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें	
○ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	

◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नम्बर
निरंक								

14.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

◇ कार्यक्रम का नाम	निरंक
◇ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
◇ उद्देश्य	
◇ लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
◇ पात्रता	
◇ पात्रता का आधार	
◇ पूर्वापेक्षाएं	
◇ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
◇ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	
◇ आवेदन शुल्क	
◇ आवेदन पत्र का प्रारूप	
◇ संलग्नकों की सूची	
◇ संलग्नकों का प्रारूप	
◇ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)	

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नं.
निरंक							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

- | | |
|------------------------------|-------|
| ◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण | निरंक |
| ◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया | निरंक |

15.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

16.0 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

जल संसाधन विभाग की वेबसाईट www.mpwr.d.nic.in पर उपलब्ध है।

17.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

● कार्यालय का सूचना पटल	संभाग कार्यालय का सूचना पटल
● विभागीय वेबसाईट	
● दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु सूचना काउंटर	

18.0 अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर.

सिंचाई योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं विवरण

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

● आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है।
● शुल्क	विभाग के प्रावधान अनुसार
● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए— कुछ टिप्स	लिखित आवेदन द्वारा
● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	अपीलीय अधिकारी अधीक्षण यंत्री जल ससांधन मंडल इन्दौर को आवेदन देकर

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण	निरंक
● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
● लाभार्थी की पात्रता	
● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
● अनुदान/सहायता (यदि हो तो)	
● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
● अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
● संलग्नकों की सूची	
● संलग्नकों का प्रारूप	
● आवेदन करने की प्रक्रिया	
● चयन प्रक्रिया	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)	
● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका	
● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य	
● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण	

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो.

<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण 	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने के लिए कहां/ किससे सम्पर्क करें 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नकों की सूची 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नकों का प्रारूप 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने की प्रक्रिया 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो) 	

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

■ पंजीयन का उद्देश्य	विभागीय कार्यों को वर्ग-स श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाना
■ आवेदक की पात्रता	विभागीय नियमानुसार
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	व्यवसायिक कार्यक्षमता
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	संभागीय लेखापाल
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	संभागीय कार्यालय
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	—
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र
■ संलग्नकों की सूची	निर्धारित जानकारी से संबंधित सहपत्र
■ संलग्नकों का प्रारूप	निर्धारित है।
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन वांछित अभिलेखों का प्रमाणित प्रति सहित।
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	आवेदन का विभाग के नियमानुसार परीक्षण किया जाता है।
■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो)	पांच साल
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया	समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन देने पर

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade tax, entertainment tax, आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

■ टैक्स का नाम व विवरण	निरंक
■ टैक्स लेने का उद्देश्य	
■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया	
■ बड़े (major) डिफाल्टर्स की सूची	

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/UPCL द्वारा दी जा सकती है)

■ आवेदक की पात्रता	
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)	

<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) 	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नों की सूची 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नों का प्रारूप 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने की प्रक्रिया 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ टेरिफ तथा अन्य देय 	

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रूपये 5/- नगद/स्टॉम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्रं. एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हाँ/नहीं
यदि हो तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीपः- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 5 का स्टॉम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बीपीएल सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम (रबर सील)
दिनांक.....

